



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 354]
No 354]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 1978/अग्रहायण 15, 1900
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 1978/AGRAHAYANA 15, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1978

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

सा० का० नि० 572(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	77/72-केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972	उक्त अधिसूचना में, "बत्तीस प्रतिशत मूल्यानुसार, और आठ सौ रुपये प्रति मीटरी टन का योग" शब्दों के स्थान पर "बत्तीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जायेंगे;

1	2	3
2.	43/75-केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर— (i) क्रम सं० 4 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:— "प्रभायें शुल्क की समुचित रकम, उसमें से दो हजार दो सौ रुपये प्रति मीटरी टन घटा कर"; (ii) क्रम सं० 6 के सामने निम्न-प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:— "सोलह प्रतिशत मूल्यानुसार" (iii) क्रम सं० 9 के सामने स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:— "अठ्ठाइस प्रतिशत मूल्यानुसार"

[(207/78) का० सं० 335/ख/14/78-टी०आर यू०]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, 6th December, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the

Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	77/72—Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In the said notification, for the words "thirty-two per cent ad valorem plus eight hundred rupees per metric tonne" the words "thirty-two per cent ad valorem" shall be substituted;
2.	43/75—Central Excises, dated the 1st March, 1975.	In the Table annexed to the said notification, for the entry in column (4) against— (i) Serial No. 4, the following entry shall be substituted, namely :— "Appropriate amount of duty chargeable less two thousand and two hundred rupees per metric tonne"; (ii) Serial No. 6, the following entry shall be substituted, namely :— "Sixteen per cent ad valorem";

(iii) Serial No. 9, the following entry shall be substituted, namely :—

"Twenty-eight per cent. ad valorem".

[No. 207/78—C.E. F. No. 335/B/14/78—TRU (Pt)]

सीमा-शुल्क

सां. कां. निं. 573(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) को धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 90-सीमा-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को विधिवत करती है।

[सं. 232/कां. सं. 335/ब/14/78-टी०आर०यू०]

टी० आर० रुस्तगी, अवर सचिव

CUSTOMS

G. S. R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 90-Customs, dated the 18th June, 1977.

[No. 232-Customs/F. No. 335/B/14/78-TRU (Pt.)]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.